



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आश्विन 1946 (श10)

(सं० पटना 995) पटना, सोमवार, 14 अक्टूबर 2024

सं० 05/अ0प्र0-01-23/2024-6040

ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

1 अक्टूबर 2024

विषय :- ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर 231 (दो सौ इक्तीस) सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन की स्वीकृति।

ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता (असैनिक) के 883 स्वीकृत पदों में से सीधी नियुक्ति के कुल 547 पद हैं जिसमें से 231 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक-2924 अनु० दिनांक 12.06.2024 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया गया है। चयन प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगने की संभावना है।

2. विभागीय संकल्प सं०-6800 दिनांक 28.11.2023 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के बढ़े हुए कार्यों एवं दायित्वों का ससमय गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप निष्पादन हेतु पूर्व सृजित एवं नवसृजित सभी कार्यालयों को सशक्त एवं संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के निमित्त आवश्यकता आधारित नये एवं अतिरिक्त पदों के सृजन सहित पूर्व स्वीकृत पदों का पुनर्गठन एवं युक्तिकरण किया गया है। इस पुनर्गठन के फलस्वरूप सहायक अभियंता (असैनिक) स्तरीय 108 नए जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला का सृजन किया गया है। इन प्रयोगशालों के संचालन/क्रियान्वयन के लिए सहायक अभियंताओं की आवश्यकता है। सहायक अभियंताओं की घोर कमी को देखते हुए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त सहायक अभियंता की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि सहायक अभियंता (असैनिक) का पद बेसिक ग्रेड का पद है। इस पद से काफी कम संख्या में अभियंता सेवानिवृत्त होते हैं। इस बात की सम्भावना क्षीण है कि संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पर्याप्त मात्रा में सेवानिवृत्त सहायक अभियंता उपलब्ध हो पाए।

3. ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के ससमय कार्यान्वयन एवं विभागीय संकल्प सं0-6800 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा नवसृजित सभी कार्यालयों को सशक्त एवं संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ एवं संचालित करने के निमित्त सहायक अभियंता (असैनिक) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्ब को देखते हुए कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक 22.01.2021 के निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन के आधार पर 231 (दो सौ इकत्तीस) सहायक अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर एक बार में एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) के लिए GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) Score के आधार पर नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा। इस नियोजन हेतु अन्य अर्हताएँ वही होगी जो नियोजन में बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली में विहित है। नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति को संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक 22.01.2021 की कंडिका-4(3)(I) के आलोक में गठित समिति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही अनुमान्य होगा तथा संकल्प की कंडिका-4(4) में निहित प्रावधान के अनुरूप नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिमानता दी जाएगी। यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी होगा और नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 995+571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>